

## प्रेस-विज्ञप्ति

आज दिनांक 25 मार्च 2019 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के उच्चकृत कम्युनिटी मेडिसिन एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा 61वें स्थापना दिवस का वार्षिकोत्सव एवं स्व० प्रोफेसर बी०सी० श्रीवास्तव व्याख्यान का आयोजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चिकित्सा विश्वविद्यालय के मा० कुलपति प्रो० एम०एल०बी०भट्ट ने उच्चकृत कम्युनिटी मेडिसिन एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग के द्वारा किए गए शोध कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यहां होने वाली उच्च शिक्षा का विस्तार आज न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है।

इस अवसर पर उच्चकृत कम्युनिटी मेडिसिन एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ० उदय मोहन ने विभाग की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस विभाग के स्थापना हेतु दिनांक 26 दिसंबर 1957 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश पारित किया गया जो 15 मार्च 1958 में पूर्णरूप से क्रियान्वित हुआ। इसके उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर सन् 1972 में इसे उच्चकृत किया गया। उन्होंने बताया कि इस विभाग में एम०बी०बी०एस०, एम०डी०, डी०पी०एच०, पी०एच०डी० एम०सी०एच० (इग्नू) तथा सी०एच०सी०डब्ल्यू०एम० (इग्नू) के छात्रों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। पूरे भारतवर्ष में यह ही एक मात्र इतना बड़ा विभाग है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो प्रयोगात्मक शिक्षण-स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा अर्बन स्वास्थ्य केन्द्र आता है। इस विभाग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया जाता रहा है।

उन्होंने बताया कि यहाँ के विद्यार्थियों को नुक्कड़ नाटक एवं क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से सम्बन्धित विषय की शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा विशेष क्लीनिक जैसे स्त्री रोग, दन्त चिकित्सा, गुप्त रोग, अन्ट्रासाउन्ड, एक्स-रे एवं टीकाकरण क्लीनिक व मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेना की नर्सों के प्रशिक्षण का संचालन भी इस विभाग द्वारा भली-भांति किया जाता है।

इस विभाग के उत्थान में स्व० प्रोफेसर बी०जी० प्रसाद व स्व० प्रोफेसर बी०सी० श्रीवास्तव का विशिष्ट योगदान रहा है। उन्हीं की याद में स्व० प्रोफेसर बी०जी० प्रसाद की मूर्ति विभाग में स्थापित है। स्व० प्रोफेसर बी०सी० श्रीवास्तव का ओरेशन डा० सिद्धार्थ निरूपम, पूर्व स्वास्थ्य विशेषज्ञ, यूनीसेफ द्वारा दिया गया।

स्थापना दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय कुलपति प्रो० एम०एल०बी० भट्ट, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ,डा० सुरेश चन्द्रा, डायरेक्टर, एम०सी०एच०, उ०प्र० सरकार को इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया।

डा० उदय मोहन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के संरक्षण में स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में विभाग के सभी शिक्षक, कर्मचारियों के साथ ही साथ विश्वविद्यालय के अन्य विभाग के वरिष्ठ शिक्षण-गण भी उपस्थित थे।